

# पैटर्न मेकिंग: डार्ट इन सीम

पैटर्न मेकिंग की शृंखला के तीसरे भाग यानी पिछले अंक में एन.ए.ज्ञान, एसोसिएट प्रोफेसर, निपट दिल्ली ने डार्ट द्वारा फिटिंग समस्या दूर करने व डिजाइन में डार्ट की मदद पर चर्चा की थी। इस बार वे डार्ट को काट करके उसको स्टाइल लाइन या प्रिंसेस सीम में बदलने की प्रक्रिया समझा रहे हैं। इस तरह के डाटर्स को डार्ट इन सीम भी कहते हैं।

## डार्ट

इन सीम को दो तरीके से बनाया जा सकता है।

1. प्रिंसेस लाइन द्वारा

2. इंपायर लाइन द्वारा

**प्रिंसेस लाइन:** डार्ट का इनले काट करके फ्रंट का बैक में दो पैनल में बदलना प्रिंसेस लाइन कहलाता है। प्रिंसेस लाइन दो तरीके की होती है।


1. शोल्डर प्रिंसेस लाइन 2. आर्महोल प्रिंसेस लाइन

फ्रंट में बदलाव

शोल्डर प्रिंसेस लाइन


शोल्डर प्रिंसेस लाइन बनाने के लिए हमने शोल्डर व वेस्ट डार्ट वाला पैटर्न प्रयोग किया है (देखें अपेरल ऑनलाइन जुलाई अंक, पेज नं. 30-31)।

इसमें AB शोल्डर डार्ट व CD वेस्ट डार्ट हैं। O बस्ट प्वाईट है। O प्वाईट से हमने OA, CO लाइन पर .75 सें.मी. की दूरी पर O<sup>1</sup>, O<sup>11</sup> मार्क किया है और O<sup>1</sup>, O<sup>11</sup> को फ्रेंच कर्व की मदद से जोड़ दिया। (चित्र 1)




अब B,D को काट कर अलग करें।

इसमें फ्रंट का पैटर्न दो पार्ट में बदल गया है जिसे हम पैनल कहते हैं। दायां भाग सेंटर फ्रंट पैनल व बायां भाग साइड पैनल कहलाता है, दोनों पैनलों में O प्वाईट पर जो कर्व शेप दिया है, उसको कैंची द्वारा शेपिंग करें। (देखें चित्र 2.)




इसमें दिए गए तीर के निशान से खड़े कपड़े (गेन लाइन) की दिशा का पता चलता है। ध्यान रहे कि जब हम प्रिंसेस लाइन बना रहे हैं तो शोल्डर डार्ट का इनटेक (मार्जिन) 7 सें.मी. से बढ़कर 7.75 सें.मी. हो जाएगा क्योंकि बस्ट शेपिंग में जो पैटर्न कम हो रहा है, उसे पूरा करने के लिए हमें शोल्डर डार्ट .75 सें.मी. बढ़ानी होगी। इसी तरीके से आर्महोल प्रिंसेस के लिए हम आर्महोल डार्ट वाला पैटर्न प्रवोग में लाते हैं। (चित्र 3)

## आर्महोल प्रिंसेस लाइन



इसमें O<sup>1</sup>, O<sup>11</sup> की दूरी 1.5 इंच है और O के पास कर्व की शेप बनाने के लिए फ्रेंच कर्व प्रयोग किया गया है।


अब JD को O पर कर्व देते हुए काटें जैसे चित्र 3 में है और इसके बाद CO, O व E को कर्व शेपिंग देते हुए काटें। इसमें भी फ्रंट दो पैनल में बदल जाएगा। तैयार पैटर्न के लिए चित्र 4 देखें।




स्थान रहे कि आर्महोल डार्ट जैसे-जैसे नीचे आता है। O<sup>1</sup>, O<sup>11</sup> पैने (शार्प) कर्व में बदलता जाता है व आर्महोल डार्ट जैसे-जैसे ऊपर (शोल्डर की लकड़ी) जाता है तो O<sup>1</sup>, O<sup>11</sup> सपाट / समतल कर्व में बदल जाता है।

### बैंक में बदलाव

फ्रंट में शोल्डर प्रिंसेस लाइन बनाने के बाद बैंक में शोल्डर प्रिंसेस लाइन विकसित की गई है, इसमें प्वाईंट नं. 37 व 42 को एक समतल बक्क से जोड़ें, देखें प्वाईंट नं. 3-4 व 5-6, डॉट्ट लाइन से कर्व हैं। (देखें चित्र 5)।




42 व 37 को हल्का कर्व शेप देते हुए 41-42-37 व D तक काट कर अलग करें, इसके बाद C-4-5-6 व 43 को काटें, ये भी पैनल में बदल जाएगा। (चित्र 6)




### बैंक में आर्महोल प्रिंसेस

आर्महोल पर 44 मार्क करें और उसे 37 से कर्व शेप में जोड़ें, इसमें हम बिना शोल्डर डार्ट वाला पैटर्न प्रयोग कर रहे हैं। (चित्र 7)



D, 37 व 44 को काट कर अलग करें। C-37 वेस्ट डार्ट मार्जिन काटें, यह भी दो पैनल में बदल जाएगा। 44 से 45 डार्ट मार्जिन 1 सें.मी. है जोकि शोल्डर डार्ट मार्जिन को आर्महोल से निकाला गया है (चित्र 8)



डिजाइन के अनुसार 44 ऊपर या नीचे जा सकता है, हालांकि ज्यादातर यह बैंक पिच प्वाईंट के आसपास रहता है। बैंक पिच प्वाईंट पर हम आगे चर्चा करेंगे, इस शृंखला का अगला लेख इंपायर लाइन डिजाइन पर केंद्रित होगा।